



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

01-12-2021

1. भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ग्रीन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन डेब्यू पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया।
2. झारखंड सरकार राज्य की संस्कृति, वन्य जीवन एवं साहसिक पर्यटन समेत अन्य विषयों पर वृत्तचित्र बनाने के लिए चैनल 'नेशनल जियोग्राफिक' को 2.37 करोड़ रुपये देगी।
3. केरल के फोर्ब्स-सूचीबद्ध उद्यमी सोहनराय, जिन्हें मानवता और विश्व सिनेमा में अपने अपरंपरागत योगदान के माध्यम से फिल्म उद्योग में ध्यान आकर्षित करने का जुनून है, वो ऐसे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्हें इटली में 'नाइट ऑफ पार्ट गुएल्फा' की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।
4. पाकिस्तान ने सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1ए का सफल परीक्षण किया।
5. लोकप्रिय ऑनलाइन चर्चा मंच रेडिट ने घोषणा की है कि वह अब 22 फरवरी, 2022 को प्लेटफॉर्म को बंद कर रहा है। रेडिट ने पिछले साल के अंत में शॉर्ट-फॉर्म वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म डबस्मैश का अधिग्रहण किया था।
6. केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप एस. पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के साथ वर्चुअल तरीके से दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर चालक रहित ट्रेन संचालन (यूटीओ) का उद्घाटन किया।
7. आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विधि मंत्री किरन रिजिजू ने नई दिल्ली में भारतीय संविधान पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया।
8. जम्मू-कश्मीर में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 40 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी क्षेत्रों में 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की महत्वाकांक्षी परियोजना को समर्पित किया।
9. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क वाईफाई की सुविधा मिलेगी।
10. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने आगरा, शाजापुर और नीमच जिलों के 1500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा पार्कों की आधारशिला रखी।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

02-12-2021

1. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसम्बर को भारत आएंगे।
2. दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वैरियंट मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट 5 से 16 दिसम्बर तक आयोजित होना था।
3. नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब राज्यों के रूप में सामने आए हैं।
4. भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एक्स शक्ति 2021' का छठा संस्करण फ्रांस में संपन्न हुआ।
5. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लखनऊ में आयकर विभाग के नए कार्यालय परिसर 'प्रत्यक्ष कर भवन' का उद्घाटन किया गया।
6. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में अलंकरण समारोह में सीबीआईसी के 26 अधिकारियों और कर्मचारियों को "सेवा के विशेष रूप से असाधारण रिकॉर्ड" के लिए राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र पुरस्कार प्रदान किया।
7. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने केवीआईसी के तहत कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा विकसित अनुपम एंटी-बैक्टीरियल कपड़े को लॉन्च किया।
8. भारत और जर्मनी के बीच संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में महिला शोधकर्ताओं की लेटरल एंट्री के लिए अपनी तरह का पहला कार्यक्रम शुरू किया गया।
9. स्वदेश, विश्व का पहला मल्टीमॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक्स है, जिसे डीबीटी-राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, हरियाणा में विकसित किया गया है।
10. एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर हीरो मोटोकॉर्प के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

03-12-2021

1. पूर्व भारतीय राजनयिक एवं प्रसिद्ध जो (नस्ली समूह) साहित्यकार एल कीवोम का दिल्ली में निधन हो गया। वह 82 साल के थे।
2. जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक चेहरे और महान संतूर वादक और संगीतकार पंडित भजनसोपोरी को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत (संतूर) में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है।
3. राजस्थान के भावेश शेखावत ने करणी सिंह रेंज में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब 40 में से 33 हिट के साथ हासिल किया।
4. पहली बार ब्रिक्स फिल्म महोत्सव को 20-28 नवंबर, 2021 के दौरान गोवा में आयोजित होने वाले इफ्फी महोत्सव के साथ-साथ आयोजित किया गया था।
5. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 12वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह की अध्यक्षता की।
6. केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जूबिन इरानी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नवनिर्मित ईएसआई डिस्पेंसरी एवं शाखा कार्यालय का उद्घाटन किया।
7. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मॉडल रिटेल आउटलेट योजना और दर्पण@पेट्रोलपंप नामक एक डिजिटल ग्राहक प्रतिक्रिया कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
8. केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनटीपीसी बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों (थर्मल पावर स्टेशन) के चरण- II 500 मेगावाट (2x250 मेगावाट) और एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर की यूनिट #1 (660 मेगावाट) परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया।
9. इंटरनेशनल एडवान्स्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स (एआरसीआई) और एनश्योर रिलायबल पावर सॉल्यूशन बेंगलुरु ने को लीथियम-आयन बैटरी फैब्रिकेशन लैब स्थापित करने के लिये तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण और कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

10. राजीव चंद्रशेखर, कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री ने दो परियोजनाओं का शुभारंभ किया-(i) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 3.0 के अंतर्गत एक विशेष पायलट परियोजना के रूप में कश्मीर के नामदा क्राफ्ट का पुनरुद्धार और (ii) पीएमकेवीवाई के घटक, पूर्व शिक्षा मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत कश्मीर के कारीगरों और बुनकरों का कौशल विकास।

04-12-2021

1. बिहार ने आठ करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार कर यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का पांचवा राज्य बन गया है।
2. डॉलर शेषाद्री के नाम से मशहूर तिरुमाला मंदिर के वरिष्ठ पुजारी पाला शेषाद्री का निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे।
3. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
4. वरिष्ठ नौकरशाह विवेक जौहरी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
5. लिंगुई, द सेक्रेड बॉन्ड्स- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सह-निर्मित ड्रामा फिल्म है, जो एक मां और बेटी के बीच में पवित्र संबंधों तथा पुरुषों द्वारा निर्धारित कठोर कानूनों के खिलाफ उनके अस्तित्व की कहानी को बयां करती है- इस फिल्म ने इफ्फी के 52वें संस्करण में आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक जीता है।
6. गोवा में 52वें अंतराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में जाने-माने गीतकार प्रसून जोशी को वर्ष 2021 के लिए इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला।
7. चेक निर्देशक वक्लाव कद्रनका की 'सेविंग वन हू इज़ डेड', एक चेक फिल्म है जो निराशा की सर्दियों के बीच भी आशा की मोमबत्ती रखती है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आईएफएफआई 52 सिल्वर पीकॉक के सम्मान के लिए चुना गया है।
8. निर्देशक वेन्निमारन की तमिल फिल्म 'असुरन' में अभिनेता धनुष के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें ब्रिक्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया, जो भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के 52वें संस्करण के साथ आयोजित किया गया था।
9. भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने एटीपी चैलेंजर टूर पर अपना पहला एकल खिताब जीता।
10. परमजीत कुमार जॉर्जिया के तिब्लिसी में विश्व पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा-पावरलिफ्टर बन गए।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

05-12-2021

1. रूसी युद्धपोत एडमिरल गोर्शकोव ने व्हाइट सी से सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल ने 400 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित एक लक्ष्य को निशाना बनाया।
2. एडमिरल करमबीर सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद एडमिरल आर हरि कुमार ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया।
3. लियोनेल मेस्सी ने रिकॉर्ड सातवीं बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का 'बलोन डी ओर' पुरस्कार मिला जिन्होंने बार्सीलोना के साथ आखिरी सत्र में शानदार प्रदर्शन किया और अर्जेंटीना के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता।
4. केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने 2017-18 के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (एनएचए) अनुमानों के निष्कर्ष जारी किए।
5. केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशनभोगियों के लिए यूनिक फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया।
6. सीएसआईआर-आईआईपी देहरादून के जैव-जेट ईंधन के उत्पादन की घरेलू तकनीक को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के सैन्य विमानों में उपयोग के लिये औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी गयी है।
7. केरल स्थित एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप सास्कैन मेडिटेक ने भारत सरकार की चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रेंड चैलेंज 2021 का विजेता का पुरस्कार प्राप्त किया है।
8. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के मानद मुख्य सचिव हरजिंदर सिंह धामी को सिखों के शीर्ष धार्मिक संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया।
9. दो दशक से अधिक समय से पीजीआईएमईआर अस्पताल के बाहर प्रतिदिन मरीजों और उनके परिचारकों को मुफ्त भोजन परोसने वाले 'लंगर बाबा' के नाम से मशहूर पद्मश्री से सम्मानित जगदीश लाल आहूजा का निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे।
10. आईआईटी-बॉम्बे से स्नातक 37 वर्षीय पराग अग्रवाल ने ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जैक डोर्सी की जगह ली है, जो टॉप 500 कंपनियों में सबसे कम उम्र के सीईओ बन गए हैं।

06-12-2021

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल यंग टोबैको सर्वे में पाया गया है कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल स्तर से नीचे का हर तीन में से एक छात्र किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है।
2. दिल्ली में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अभिनव परियोजना प्रदर्शनी और पुरस्कार समारोह में ललितपुर जिले के एक गांव की एक 14 वर्षीय लड़की नंदनी कुशवाहा को देश के शीर्ष 20 में स्थान मिला है।
3. तेलुगू फिल्मों के गीतकार 'सिरीवेन्नेला' सीताराम शास्त्री का निधन हो गया, उन्हें पद्म श्री और कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया था। वह 66 वर्ष के थे।
4. बॉलीवुड स्टार #संजयदत्त को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य का ब्रांड एंबेसडर बनाया है। संजय के साथ, फिल्म निर्माता राहुल मित्रा को राज्य के नामकरण के 50वें वर्ष के अवसर पर स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर ब्रांड सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है।
5. उम्मीद से बेहतर वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि हासिल करने के रास्ते पर है, आर्थिक वृद्धि दर जुलाई-सितंबर तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही, इसके साथ ही वृद्धि दर कोविड-पूर्व स्तर को पार कर गयी है।
6. वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया।
7. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार मागो ने सेवानिवृत्त होने वाले एयर मार्शल डी चौधरी से राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज (एनडीसी), नई दिल्ली के 34 वें कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया।
8. नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैस्कॉम) ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में विशाखापत्तनम में आंध्र विश्वविद्यालय परिसर में 'आईओटी और एआई पर उत्कृष्टता केंद्र' का उद्घाटन किया।
9. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने और धन जुटाने में अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
10. दुबई के मंत्री और अमीरात क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान द्वारा बताया गया कि नाइनटी-90 बैश अगले साल मई-जून में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।

07-12-2021

1. जैकडोर्सी की वित्तीय सेवा कंपनी स्क्वायर ने 10 दिसंबर से अपना नाम बदलकर ब्लॉक करने की घोषणा की है, क्योंकि पूर्व ट्विटर सीईओ ने ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकॉइन्स पर अपना ध्यान केंद्रित किया है।
2. पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंकडइन ने हिंदी में एक यूजर इंटरफेस का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर 600 मिलियन हिंदी भाषा बोलने वालों का समर्थन करना है।
3. कंसल्टिंग फर्म रेडसीर की शुरुआती चरण की शोध शाखा, रेडकोर द्वारा जारी 'इंटर-सिटी लॉजिस्टिक्स मार्केट स्टडी' के अनुसार, भारत में सड़क लॉजिस्टिक बाजार अगले पांच वर्षों में आठ प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़कर 2025 तक 330 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
4. भारत की महान एथलीट अंजू बॉकी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स ने देश में प्रतिभाओं को तराशने और लैंगिक समानता की पैरवी के लिये वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया है।
5. वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम ने नौसेना बेस में आयोजित एक शानदार समारोह में पूर्वी नौसेना के ईएनसी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग. इन चीफ (एफओसी इन सी) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
6. कर्नाटक के सकल और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने भारत में कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) की छठी सीएसआर परियोजना का शुभारंभ किया।
7. आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जयपुर के लोगों को बेहतर बिजली आपूर्ति की दिशा में एक और पहल की गई है, इसके तहत जयपुर के रामगंज में 33/11 केवी जीआईएस सबस्टेशन का उद्घाटन किया गया।
8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता (एसएमपी) के अध्यक्ष विनीत कुमार और रियर एडमिरल वीके सक्सेना, आईएन (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) ने कोलकाता में संयुक्त रूप से जीआरएसई-केपीडीडी (खिदरपुर ड्राई डॉक) का उद्घाटन किया।
9. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन के बाद आईसीसी टेस्ट की गेंदबाजी रैंकिंग में पहली बार टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है।
10. प्रो कबड्डी लीग के आयोजकों ने घोषणा की है कि आठवें सीजन की शुरुआत 22 दिसंबर से की जाएगी। साथ ही, आयोजकों ने यह भी कहा कि सीजन के सभी मैच बिना दर्शकों के ही खेले जाएंगे।

08-12-2021

1. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनफिनिटी फोरम, फिन-टेक पर एक विचारशील नेतृत्वकारी मंच का उद्घाटन किया।
2. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया।
3. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को पदोन्नत कर संगठन का प्रथम उप प्रबंध निदेशक (एफडीएमडी) बनाया जा रहा है।
4. महिला टेनिस एसोसिएशन (डब्ल्यूटीए) ने चीन की टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई के मुद्दे को लेकर चीन में सभी महिला टेनिस टूर्नामेंट को तत्काल निलंबित करने की घोषणा की है।
5. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर के बेहट इलाके में 'मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय' की आधारशिला रखी।
6. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विशेष कर सौर ऊर्जा में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के साथ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) के साथ एक समझौता किया है।
7. असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने कहा कि राज्य सरकार टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा को राज्य में कैंसर के इलाज की सुविधाओं के निर्माण में उनके योगदान के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'असम बैभव' प्रदान करेगी।
8. युवा आलराउंडर कासिम अकरम अगले साल वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी अंडर-19 विश्व कप में पाकिस्तान की अगुआई करेंगे।
9. बिहार की शॉटगन शूटर श्रेयशी सिंह ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपना दूसरा महिला ट्रैप खिताब जीता।
10. फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स के लिए सबसे ज्यादा नामांकन हासिल करने वालों में हंसल मेहता निर्देशित 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' अक्वल रही।

09-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देहरादून का दौरा किया और लगभग 18,000 करोड़ रुपये लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
2. तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और एकीकृत आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कोनिजेटी रोसैया का हैदराबाद में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे।
3. मुंबई में जन्में बायें हाथ के स्पिनर ऐजाज पटेल ने क्रिकेट की रिकॉर्ड पुस्तिका में अपना नाम दर्ज करा लिया जब वह भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में तीसरे गेंदबाज बन गए।
4. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ई-वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा बिजली परिवहन संवर्द्धन नीति-2021 का शुभारंभ किया।
5. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में पांच लाख से अधिक एके-203 असॉल्ट राइफल के विनिर्माण की योजना को मंजूरी दी है।
6. अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने में अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) ने आज टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
7. स्वर्णिम विजय दिवस और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केरल के कन्नूर जिले के एझिमाला में आईएनएस द्रोणाचार्य से भारतीय नौसेना अकादमी के लिए कोच्चि में एक साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई गई।
8. आईआईएम अहमदाबाद ने अरुण दुग्गल पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट संचालन (ईएसजी) सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन लॉन्च किया है।
9. एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने आधिकारिक तौर पर अपना मुख्यालय पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया से ऑस्टिन, टेक्सास में स्थानांतरित कर दिया है।
10. नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन (एनबीए) और निजी प्रसारण समूह वायकॉम18 ने एनबीए खेलों के टेलीविजन पर सीधा प्रसारण के लिए एक समझौता किया है। यह समझौता कई वर्ष के लिये है।

10-12-2021

1. हिमाचल प्रदेश सभी पात्र लोगों को टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
2. न्यूजीलैंड के एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं।
3. गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित 57वें बीएसएफ स्थापना दिवस परेड की मुख्य अतिथि के तौर पर अध्यक्षता की।
4. भारतीय नौसेना ने नौसेना दिवस 2021 को चिह्नित करते हुए पश्चिमी नौसेना कमान में प्रतिष्ठित गेटवे ऑफ इंडिया के सामने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया।
5. भारत और मालदीव के बीच एकुवेरिन सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण 6 से 19 दिसंबर 2021 तक मालदीव के कदधू द्वीप में आयोजित किया जाएगा।
6. विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और पहले राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कारों की घोषणा की।
7. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्व आसूचना निदेशालय के 64वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
8. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री और ईएसआईसी, चेयमरैन भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में अहमदाबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद और कोलकाता स्थिति चार ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों/ अस्पतालों में 40 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के बीमिति लोगों के लिए निवारक वार्षिक स्वास्थ्य जांच के लिए एक समर्पित पायलट कार्यक्रम लॉन्च किया।
9. अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम), अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) और ग्लोबल एडटेक एक्सेलेरेटर- यूइनसेप्ट ने एडटेक संस्थापकों के शुरुआती और उन्नत चरण के लिए 'ऑल इंडिया एडटेक चैलेंज एंड मास्टर क्लास सीरीज' आयोजित करने के लिए हाथ मिलाया है।
10. श्याम-श्वेत युग में दूरदर्शन के साथ अपना करियर शुरू करने और बाद के दशकों में डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले जानेमाने पत्रकार विनोद दुआ का दिल्ली में निधन हो गया। वह 67 वर्ष के थे।

11-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने नई दिल्ली में 21वीं भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लिया।
2. म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की को सेना के खिलाफ असंतोष भड़काने और कोविड - 19 नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने के बाद चार साल जेल की सजा सुनाई गई है।
3. अग्रणी ऑनलाइन उच्च शिक्षा कंपनी अपग्रेड ने घोषणा की कि उसने गुरुग्राम स्थित एडटेक प्रतिद्वंद्वी टैलेंटेज का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण का मूल्य 350-400 करोड़ रुपये के बीच है।
4. भारत के युवा दिमागों को सशक्त बनाने के लिए, ओप्पो ने आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों के लिए शैक्षणिक खचरों को कवर करने वाली स्कॉलरशिप्स की पेशकश की जाएगी।
5. रूस ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर 2006 के बाद अपना पहला डेविस कप खिताब जीता।
6. आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वर्चुअल माध्यम से मणिपुर के मोरेह में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया और इसके साथ ही मणिपुर में आयुष उद्योग के विकास एवं संवर्धन के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा की।
7. भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे चार सर्वेक्षण पोत (लार्ज) प्रोजेक्ट में से पहला 'संध्याक' कोलकाता में लॉन्च किया गया।
8. अर्जेंटीना ने कलिंगा स्टेडियम में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में छह बार के चैंपियन जर्मनी को 4-2 से हराकर 16 साल के अंतराल के बाद खिताब जीता।
9. भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स के फाइनल में दक्षिण कोरिया की औ से-यंग से 16-21, 12-21 हार गई।
10. जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) की एक रिसर्च स्कॉलर को प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप (पीएमआरएफ) के लिए चुना गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर रुबीना को मई 2021 के अभियान के दौरान प्रत्यक्ष प्रवेश श्रेणी के तहत इस फेलोशिप के लिए चुना गया है।

12-12-2021

1. रंगभेद विरोध के प्रतीक रहे भारतीय मूल के इब्राहिम इस्माइल इब्राहिम का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गोरखपुर का दौरा किया और 9600 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित किया
3. वेब सेवा याहू द्वारा जारी किया गया 'इयर इन रिव्यू 2021' रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवंगत रियलिटी टेलीविजन स्टार और अभिनेता, सिद्धार्थ शुक्ला, इस वर्ष के सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले पुरुष हस्ती हैं
4. ब्रिटेन सरकार ने दवा उपचार के लिए फंडिंग में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी के साथ अपनी 10 साल की दवा रणनीति का अनावरण किया है।
5. चेन्नई के साबरी जे ने चंडीगढ़ के आकाशदीप सिंह को आठ दौर के मुकाबले में पराजित करके विश्व मुक्केबाजी परिषद (डब्ल्यूबीसी) भारत का पहला वेल्टरवेट खिताब जीता।
6. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अमन फरोग संजय ने दक्षिण अफ्रीका इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज के फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त रॉबर्ट समर्स पर संघर्षपूर्ण जीत से लगातार दूसरा पुरुष एकल खिताब जीता।
7. भारत और रूस ने व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति, बौद्धिक संपदा लेखा और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड 28 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
8. बांग्लादेश को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में 1971 में भारत और भूटान की ओर से मान्यता दिये जाने की याद में पहला मैत्री दिवस बांग्लादेश में मनाया गया।
9. राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) और लखनऊ स्थित वैऔअप-केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान (सीएसआईआर-सीआईएमएपी) ने औषधीय पौधों के बेहतर गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री (क्वालिटी प्लांटिंग मैटेरियल-क्यूपीएम) के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास करने के वास्ते एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये।
10. यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब ने इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज डैरेनगफ को क्लब में क्रिकेट का प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की। गफ की नियुक्ति 2022 सीजन के समापन तक चलेगी।

13-12-2021

1. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होने वाली एक औपचारिक परेड में 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसे किलर स्क्वाड्रन के रूप में भी जाना जाता है, को प्रेसीडेंट्स स्टैंडर्ड प्रदान किया।
2. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा, जबकि रिवर्स रेपो दर को भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया।
3. ओलाफ स्कोल्ज़ ने जर्मनी के नए चांसलर के रूप में शपथ ली।
4. विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत एक गरीब और सबसे अधिक असमानता वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। देश में वर्ष 2021 में एक फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय आय का 22 फीसदी हिस्सा है जबकि निचले तबके के पास 13 फीसदी है।
5. भारतीय मूल के भौतिकीविद् अनिल मेनन को नौ अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ नासा के भावी अभियानों के लिए चुना गया है।
6. ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
7. भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान (आईडीईए) के सलाहकार बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
8. राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'शी इज ए चेंजमेकर' शुरू किया।
9. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग लिमिटेड (आईओएसएल) को एयरपोर्ट के लिए मल्टी-यूजर फ्यूल फार्म और हाइड्रेंट सिस्टम सहित फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए 30 साल की रियायत दी है।
10. पाकिस्तान के आबिदअली, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी और ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को यूएई में आईसीसी टी20 विश्व कप और उसके बाद की टेस्ट सीरीज में उनके प्रदर्शन के आधार पर नवंबर माह के लिए 'आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ' के लिए नामांकित किया गया है।

14-12-2021

1. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 एमके -1 से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
2. झारखंड सरकार ने कोविड महामारी में मारे गए लोगों के परिवारों को 50 - 50 हजार रुपये देने का फैसला किया है।
3. जाने माने कोंकणी लेखक दामोदर माउजो को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दामोदर माउजो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोंकणी के दूसरे लेखक हैं, इससे पहले रविन्द्र केलेकर को 2006 में यह सम्मान दिया गया था।
4. अमेरिका के संघीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या एलर्जी से पीड़ित उन लोगों के लिए कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता बनाने वाली एक दवा को मंजूरी दी, जिन्हें टीकाकरण से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल सकती है।
5. दक्षिण अफ्रीका ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके की बूस्टर खुराक दिए जाने को मंजूरी दे दी है।
6. टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) के कार्यकारी निदेशक डॉ सुरेश जाधव का निधन हो गया। जाधव 72 वर्ष के थे।
7. दिल्ली का आईएनए फल और सब्जी बाजार, राष्ट्रीय राजधानी का पहला बाजार बन गया है जिसे 'भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण' (एफएसएसआई) द्वारा 'स्वच्छ तथा ताजे फल और सब्जी का बाजार' का प्रमाण पत्र दिया गया है।
8. भारत की पायस जैन और सुहाना सैनी को विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना होगा।
9. गूगल इंडिया के 'ईयर इन सर्च 2020' के नतीजों के अनुसार, क्रिकेट का खुमार भारतीयों के सिर चढ़कर बोलता है और यह फिर साबित हो गया जब इस साल गूगल इंडिया सर्च ट्रेंड में आईपीएल और टी20 विश्व कप ने कोरोना टीका या कोविन पोर्टल को पछाड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।
10. विराट कोहली को भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया और राष्ट्रीय चयन समिति ने 2023 वनडे विश्व कप तक रोहित शर्मा को नया कप्तान बनाया है।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

15-12-2021

1. प्रशंसित भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोशी को 'रॉयल गोल्ड मेडल 2022' प्रदान किया जाएगा, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स (आरआईबीए) ने यह घोषणा की।
2. दिल्ली के बल्लेबाज यश धुल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में 23 दिसंबर से शुरू होने वाले अंडर-19 एशिया कप में भारत की 20 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने यह घोषणा की।
3. रिजर्व बैंक ने जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को इंडसइंड बैंक में करीब 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
4. विश्व बैंक समूह ने अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण सेवा कंपनी रामकी एनविरो इंजीनियर्स लि. (आरईईएल) पर 20 महीने के प्रतिबंध की घोषणा की है, प्रतिबंध भारत में औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना के लिए क्षमता निर्माण के तहत "काम में धोखाधड़ी के तरीके" के सिलसिले में लगाया गया है।
5. मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू कर दी है।
6. केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने जी20अध्यक्ष, इंडोनेशिया द्वारा बाली में आयोजित जी20 अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में नई दिल्ली से वर्चुअल रूप में भाग लिया।
7. भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस जियो को सीडीपी की 2021 वैश्विक रेटिंग में सबसे ऊंची 'ए-' रेटिंग मिली है, जो कि सीडीपी की सर्वोच्च रेटिंग है, गैर-लाभकारी संस्था सीडीपी पर्यावरणीय प्रभावों से निपटने के तरीकों को लेकर कंपनियों की रेटिंग करती है।
8. स्विटजरलैंड की ब्रोकरेज फर्म क्रेडिट सुइस ने उम्मीद जतायी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिविधियां आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक रहेंगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 9 प्रतिशत रहने की संभावना है।
9. राज्य सरकार द्वारा दो प्रमुख शहरों, राज्य की राजधानी भोपाल और आर्थिक और आईटी शहर इंदौर में पुलिस आयुक्तालय प्रणाली को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ, ये दोनों शहर देश के 71 शहरों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनमें वर्तमान में आयुक्त प्रणाली है।
10. उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एस. बिद्यारानी देवी ने महिलाओं के 55 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक जीता।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

11. भारत की झिली डालाबेहेरा ने उजबेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

16-12-2021

1. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने हैदराबाद सिटी में 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी' विषय पर एक समारोह को सम्बोधित किया।
3. केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोवा स्थित मोरमुगाओ बंदरगाह पर नदी कूज सेवा का शुभारंभ किया।
4. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने पोखरण रेंज में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड-ऑफ एंटी-टैंक (एसएएनटी) मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
5. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विस्तारित रेंज पिनाका (पिनाका-ईआर) मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का पोखरण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
6. पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कर्ज माफी योजना शुरू की, जिसके तहत अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग भूमि विकास वित्त निगम से लिए जाने वाले 50,000 रुपये तक के कर्ज को माफ कर दिया जाएगा।
7. दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को मानवता, शांति, प्रकृति व संस्कृति के क्षेत्र में योगदान और दुनियाभर में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार के लिए 'भगवान बुद्ध भारत शांति एवं पर्यटन मित्र पुरस्कार, 2021' से सम्मानित किया गया है।
8. मलयालम में बाल साहित्य के क्षेत्र में पुस्तकों की रचना करने वाले एस. शिवदास को 'बिग लिटल बुक' पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया गया है जबकि इलस्ट्रेटर (चित्रांकन) का पुरस्कार दीपा बलसावर को दिया जाएगा।
9. भारतीय नौकाचालक अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियाई नौकायन चैंपियनशिप में पुरुष युगल स्कल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता जबकि परमिंदर सिंह ने पुरुष एकल स्कल्स प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम किया।
10. घड़ी और आभूषण कंपनी टाइटन ने एस कृष्णन को अपने निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है, वह वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

17-12-2021

1. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,000 से अधिक संतों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में वाराणसी उत्तर प्रदेश में श्री काशी विश्वनाथ धाम के चरण 1 का उद्घाटन किया।
2. 2000 में लारा दत्ता के खिताब जीतने के दो दशक बाद भारत की हरनाज़ संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) का शुभारंभ किया।
4. आठ बार के विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ भाजपा नेता हरबंस कपूर का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे।
5. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया ने 72 अरब डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।
6. उत्तर और दक्षिण कोरिया, अमरीका तथा चीन कोरियाई युद्ध की समाप्ति की औपचारिक घोषणा करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं।
7. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया।
8. लेखक ऐनी राइस, जो अपने बेस्टसेलिंग गॉथिक उपन्यास, इंटरव्यू विद द वैम्पायर के लिए व्यापक रूप से जानी जाती हैं, का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
9. पैरा-एथलीट चंदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और विश्व स्तर पर इतना बड़ा स्थान हासिल करने वाले जम्मू-कश्मीर के पहले पैरा एथलीट बन गए।
10. रेडबुल के मैक्स वेरेस्टाप्पेन ने आबु धाबी ग्रांड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस जीत ली है।

18-12-2021

1. मशहूर जिम्नास्ट सिमोन बिलेस को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है।
2. उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखण्ड में चार धाम परियोजना के तहत सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर दो लेन करने की अनुमति दे दी है, रक्षा मंत्रालय ने आठ सौ 99 किलोमीटर लंबी चार धाम परियोजना के तहत सड़क चौड़ी करने की अनुमति मांगी थी।
3. अडाणी ग्रीन एनर्जी (एजीईएल) ने 4,667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक करार किया है।
4. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए 13-19 दिसंबर, 2021 तक रक्षा मंत्रालय के समर्पित सप्ताह के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी) के कई अहम कार्यक्रमों का उद्घाटन किया।
5. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉरपीडो सिस्टम ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया।
6. भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष ने शिकायतों के प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म 'लोकपालऑनलाइन' का उद्घाटन किया।
7. भारत ने 2024 में होने वाले गेम्स के लिए टीओपीएस एथलीट्स की पहली सूची में 20 नए खिलाड़ियों सहित 148 एथलीट्स शामिल किए।
8. अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और भारत में डेनमार्क के दूतावास ने भारत-डेनमार्क द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी के भाग के तहत नवाचारों के माध्यम से वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए जल नवाचार चुनौतियों के दूसरे संस्करण की घोषणा की।
9. श्रीलंका क्रिकेट ने घोषणा की कि पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने को राष्ट्रीय टीमों का 'सलाहकार कोच' नियुक्त किया गया है।
10. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कटक और खुर्दा जिलों में बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को 'स्मार्ट हेल्थ कार्ड' वितरण की शुरुआत करते हुए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया।

19-12-2021

1. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने दिग्गज अभिनेता राज कपूर की 97वीं जयंती के अवसर पर 'राज कपूर: द मास्टर एट वर्क' पुस्तक का विमोचन किया।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के उमरहा ग्राम में स्वरवेद महामंदिर धाम में सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान की 98वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लिया।
3. लद्दाख को अपनी राजधानी लेह में अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन मिल गया। सलाहकार लद्दाख, उमंग नरूला ने पहला 'टॉप एफएम' रेडियो का उद्घाटन किया।
4. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएस) समीक्षा में जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 'ए++' रैंक हासिल की है।
5. प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अनुषंगी एनएसई इंडाइसिस लि. ने डिजिटल सूचकांक जारी किया, यह सूचकांक डिजिटल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर रखेगा।
6. केरल में बालश्रम के बारे में जो सूचना देगा उसे 2500 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, राज्य सरकार ने अपनी नयी योजना में यह घोषणा की।
7. डेलॉयट की एक रिपोर्ट के अनुसार, टाटा समूह की कंपनी टाइटन सहित पांच भारतीय ब्रांड लगजरी सामानों से जुड़े शीर्ष 100 वैश्विक ब्रांड में शामिल हैं, इस सूची में टाइटन तीन पायदान ऊपर चढ़कर इस बार 22वें स्थान पर पहुंच गई है और साथ ही 20 सबसे तेजी से बढ़ती लगजरी सामान कंपनियों में शामिल है।
8. महिला मोटरसाइकिल रेसर ऐश्वर्य पिप्पे ने तमिलनाडु के केथनूर में पांचवें चरण में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार पांचवीं बार राष्ट्रीय रैली चैंपियनशिप का खिताब जीता।
9. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की तरफ से जारी नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने नवंबर में 24.1 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की डाउनलोड गति (स्पीड) के साथ 4जी सेवाप्रदाताओं के बीच शीर्ष स्थान फिर से हासिल कर लिया।
10. थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में एक दशक से ज्यादा के उच्चतम स्तर 14.23 प्रतिशत पर पहुंच गयी, इसका मुख्य कारण खनिज तेलों, मूल धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है।



Monthly Current Affair of December, 2021 in Hindi

20-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 50वें विजय दिवस के अवसर मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के जांबाजों के अदम्य शौर्य तथा बलिदान को याद किया।
2. यूनेस्को ने 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया।
3. कारपोरेट कार्य मंत्रालय और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया ने दोनों संगठनों के बीच डाटा के आदान प्रदान के लिए एमओयू किया।
4. एनटीपीसी ने सिम्हाद्री (विशाखापत्तनम के पास) के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही "एकल ईंधन-सेल आधारित माइक्रो-ग्रिड" परियोजना की शुरुआत की है।
5. पर्यावरण मंत्रालय के मुख्यालय ने 'स्वच्छ भारत अभियान' के तहत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के स्वच्छता रैंकिंग पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है।
6. भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर पंजाब नेशनल बैंक पर 1.8 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
7. भारत अगले साल दक्षिण एशिया फुटबॉल महासंघ (सैफ) की अंडर-18 और अंडर-19 महिला चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
8. भारत की रंजीता थेकचाम और उवेना फर्नांडिस को 20 जनवरी से मुंबई और पुणे में होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप के लिए मैच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
9. जेल में कैद रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवलनी की बेटी ने अपने पिता की ओर से यूरोपीय संघ (ईयू) का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार ग्रहण किया।
10. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने घोषणा की कि वह पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन के दौरान जापान में राजदूत के रूप में सेवा देने वाली, दिवंगत राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की बेटी कैरोलिन कैनेडी को ऑस्ट्रेलिया में राजदूत के तौर पर और प्रसिद्ध अमेरिकी ओलंपिक स्केटर मिशेल क्वान को बेलीज में अपने मुख्य दूत के रूप में सेवा करने के लिए नामित कर रहे हैं।

21-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहरी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और इसे संबोधित किया।
2. आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और आयुष सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की।
3. ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने गुवाहाटी-पुणे के बीच पहली सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया।
4. केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, प्रह्लाद जोशी ने एक कार्यक्रम में 24 नए खानों सहित 99 कोयला खानों के नीलामी की चौथी श्रृंखला की शुरुआत की।
5. वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, एवीएसएम, एनएम ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया।
6. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा संपदा महानिदेशालय के 96वें स्थापना दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किए।
7. रियर एडमिरल संदीप मेहता, वीएसएम ने मुंबई में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया (एफओएमए) के रूप में पदभार ग्रहण किया।
8. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत की विजय की स्वर्णजयंती के अवसर पर नई दिल्ली में भारतीय डाक द्वारा तैयार विशेष दिवस आवरण और स्मारक डाक टिकट जारी किया।
9. भारत-वियतनाम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।
10. केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए एमआईएस (प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल की शुरुआत की।
11. प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) ने भारत में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कंपिटिटिवनेस ने तैयार किया है।

22-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी। 594 किलोमीटर लंबा व छह लेन का एक्सप्रेस-वे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा।
2. आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत सत्यापित महिला स्वसहायता समूह सदस्याओं के लिये पांच हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा को आरंभ किया।
3. दिग्गज कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएल जलप्पा का कोलार में निधन हो गया। उनकी उम्र 96 वर्ष थी।
4. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन का नौवां सत्र शुक्रवार को मिस्र के शर्म अल-शेख शहर में संपन्न हुआ।
5. भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने देश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो' से सम्मानित किया।
6. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार देश में 35 बहुपयोगी लॉजिस्टिक्स पार्क बनाएगी, इन पर कुल 50 हजार करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।
7. उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने और अधिक विचारों को क्राउडसोर्स करने के लिए-यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूलिप) हैकथॉन - 'लॉजीएक्सटिक्स' लॉन्च किया है जो लॉजिस्टिक्स उद्योग को लाभान्वित करेगा।
8. भारत और वियतनाम ने समुद्र विज्ञान तथा पारिस्थितिकी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
9. भारत सरकार और जर्मनी के विकास बैंक 'केएफडब्ल्यू (क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौ)' ने सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए 442.26 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
10. भारत-अमरीका ने एस एंड टी आधारित उद्यमी पहल के एक कार्यक्रम को मदद करने की घोषणा की है, जो अगली पीढ़ी की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, कार्बन स्ववियोजन, जलवायु एवं स्वच्छ ऊर्जा चुनौतियों का सामना करने के लिए काम करेगा।

23-12-2021

1. चेल्सी के फारवर्ड क्रिस्टियन पुलिसिच को अमेरिका का साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया है।
2. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह ने अपनी लक्षित आबादी के शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
3. वाशिंगटन राज्य के सीनेटर डग एरिक्सन, एक कट्टर रूढ़िवादी, का 52 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
4. उपभोक्ता आपूर्ति-श्रृंखला कंपनी स्टेलर वैल्यू चैन सॉल्यूशंस 4-5 वर्षों में देश के 21 प्रमुख शहरों में 200 एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने जा रही है, पांच करोड़ वर्ग फुट जगह में 30,000 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता के साथ ये गोदाम बनाए जाएंगे।
5. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (एसईईपीजेड) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए एक मेगा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला रखी।
6. राष्ट्रीय कैडेट कोर और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
7. भारत सरकार की क्षमता निर्माण पहल के तहत राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान जो प्रमुख केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है ने भूमि सर्वेक्षण में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया।
8. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के तट पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल 'अग्नि पी' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।
9. इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
10. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड टीके कोवोवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है।

25-12-2021

1. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की।
2. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज के दौरे पर 202 पूरक पोषण निर्माण इकाइयों की आधारशिला रखी।
3. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कौशल विकास तथा उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गोण्डा, मुरादाबाद और सहारनपुर जिले के नवनिर्मित आधार सेवा केंद्र (एएसके) का उद्घाटन किया।
4. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन इस साल दुनिया भर में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा तीसरे सबसे अधिक सर्च किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं।
5. इजरायल के सेंट्रल बैंक ने कोविड के खिलाफ लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ के सम्मान में विशेष सिक्के जारी किए हैं। 20 करोड़ से ज्यादा नई डिजाइन के 5 नए शेकेल सिक्के जारी किए गए हैं, जो बाजारों में उपलब्ध होंगे।
6. केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर और मिर्जापुर में 4160 करोड़ रुपये की लागत से 232 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया।
7. अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की घटनाओं पर लखनऊ में भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया।
8. नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य कार्यक्रम के साथ आशय घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किये।
9. प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
10. भारतीय तटरक्षक में ऑफिसरों की भर्ती प्रक्रिया डिजिटल हो गई। इसके लिए वेबसाइट (<https://joinindiancoastguard.cdac.in>) लॉन्च की गई। इसमें कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया के ऑटोमेशन को शामिल किया गया है।
11. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थापित होने वाली 40 मेगावाट/120 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना के साथ 100 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का ठेका दिया है।

26-12-2021

1. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के तट पर डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
2. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने एम्स नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
3. केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक पी टी थॉमस का तमिलनाडु के वेल्लौर में निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे।
4. पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया को आईपीएल 2022 से पहले लखनऊ फ्रैंचाइजी का सहायक कोच नियुक्त किया गया।
5. गुजरात सरकार 10 से 12 जनवरी 2022 के बीच महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र, गांधीनगर, गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 का आयोजन कर रही है।
6. अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) ने साउथ-साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म के तहत पहले एग्रीटेक कोहॉर्ट की घोषणा की।
7. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर और मुरादाबाद में आधार सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है।
8. देश में विकसित अगली पीढ़ी के बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन के पहले सेट को सेना की इंजीनियर्स कोर में शामिल किया गया।
9. इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कोच डेविड लॉयड ने घोषणा की कि वह स्काई स्पोर्ट्स के कमेंटेटर की भूमिका को छोड़ रहे हैं, उन्होंने दो दशक से भी अधिक समय तक कमेंटेटर की भूमिका निभायी।
10. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि उसने खुफिया एजेंसियों के साथ एक समन्वित प्रयास में 20 यूट्यूब चैनल और दो वेबसाइट को अवरुद्ध (ब्लॉक) करने का आदेश दिया है क्योंकि वे भारत विरोधी दुष्प्रचार और फर्जी खबरें फैला रहे हैं।

27-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 870 करोड़ रुपये से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ किया और आधारशिला रखी।
2. विश्व बैंक ने 50 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है, जिससे तंजानिया की मुख्य भूमि में पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में 1.2 करोड़ से अधिक बच्चों को लाभ होगा।
3. दक्षिण कोरिया यूरोप के बाहर आतंकवाद और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से लड़ने वाली यूरोपीय संघ कानून प्रवर्तन सहयोग एजेंसी में शामिल होने वाला 10वां देश बन गया है।
4. ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के सम्मान में पहले 'केरल ओलंपिक खेलों' के शुभंकर का नाम 'नीरज' रखा गया है जो एक खरगोश है, इन खेलों का आयोजन फरवरी 2022 में होगा।
5. दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी भारत के सौरव घोषाल को पेशेवर स्कवाश संघ (पीएसए) का पुरुषों का अध्यक्ष चुना गया। वह दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी अली फराग की जगह लेंगे।
6. हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में एक साल के भीतर एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली 33 स्टार्टअप कंपनियों को 'यूनिर्कोर्न' का दर्जा मिला है। इसके साथ ही भारत ने यूनिर्कोर्न की सूची में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है।
7. दवा कंपनी ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड ने सुचित्रा राव पालेपू को अपने निदेशक मंडल में तत्काल प्रभाव से गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक बनाने की घोषणा की।
8. निजी क्षेत्र के इफको-टोकियो जनरल इंश्योरेंस ने बुधवार को कहा कि उसने एच ओ सूरी को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है।
9. चीन ने एक नया नियम जारी किया है जिसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा हितों का हवाला देते हुए सभी विदेशी संगठनों या व्यक्तियों को देश में धार्मिक सामग्री का ऑनलाइन प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
10. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा के तट पर डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

28-12-2021

1. 10 राष्ट्रीय और 9 केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों के विजेता जाने-माने फिल्म निर्देशक केएस सेतुमाधवन का चेन्नई में निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संयंत्र, रामनगर, वाराणसी के लिए बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी।
3. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ और मुजफ्फरनगर में 9,119 करोड़ रुपये की 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
4. भारतीय सेना ने आर्मी सिक्वोर इंडिजेनस मैसेजिंग एप्लिकेशन नाम के एक समकालीन मैसेजिंग एप्लिकेशन का शुभारंभ किया, जो एक नई पीढ़ी का अत्याधुनिक वेब आधारित एप्लिकेशन है, इस एप को सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स के अधिकारियों की टीम द्वारा पूरी तरह से इन-हाउस विकसित किया गया है।
5. देश के माननीय राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता, भारत सरकार राजीव चंद्रशेखर के साथ एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री (कानून और न्याय) और अनिल कुमार जैन सीईओ, निक्सी ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का उद्घाटन किया।
6. भारत सरकार और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी) ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 25 करोड़ यूरो के कर्ज की पहली किस्त के लिए एक वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
7. भारत सरकार और जर्मन डेवलपमेंट बैंक - केएफडब्ल्यू ने ऊर्जा विकास कार्यक्रम, मध्य प्रदेश के लिए कम ब्याज पर 140 मिलियन यूरो के ऋण और 2 मिलियन यूरो के अनुदान के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
8. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) ने आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार भारत-जर्मन द्विपक्षीय भागीदारी के तहत 169.5 मिलियन अमरीकी डॉलर के ओडीए अवधि ऋण का लाभ उठाने के लिए केएफडब्ल्यू विकास बैंक के साथ एक समझौता किया है।
9. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने गुरुवार को घोषणा की है कि 2022 के लिए फीफा रेफरी अंतर्राष्ट्रीय सूची में 18 भारतीय रेफरी चुने गए हैं।
10. राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किये जिसमें चीन के शिनझियांग प्रांत से तब तक सामान के आयात पर रोक का प्रावधान है जब तक कारोबारी यह साबित नहीं करते कि माल बिना बंधुआ मजदूरों के बनाया गया है।

29-12-2021

1. भारतीय मूल के नारंद्रन 'जोडी' कोल्लापन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ- संवैधानिक अदालत में नियुक्त किया गया है।
2. कैमून मैके को भारत में कनाडा का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, उन्होंने नादिर पटेल का स्थान लिया है।
3. भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 41 वर्षीय खिलाड़ी ने 103 टेस्ट, 236 वनडे & 28 टी20 खेले।
4. सोया मील की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2022 तक 'सोया मील' को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है।
5. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने "आजादी@75 कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल टूलकिट 2022" को लॉन्च किया, कूड़ा प्रबंधन में यह शासन का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, कचरा मुक्त शहरों के लिए यह स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल है।
6. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक और द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के महानिदेशक ने नई दिल्ली स्थित टेरी के मुख्यालय में एनएमसीजी-टेरी के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया।
7. केंद्रीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आईएमयू-चेन्नई परिसर की समुद्री कार्यशाला का उद्घाटन किया और चेन्नई से वर्चुअल माध्यम से विशाखापत्तनम परिसर की नई इमारतों को देश के नाम समर्पित किया।
8. खेल मंत्रालय ने चार एफआईई विश्व कपों में भाग लेने के लिए तलवारबाज़ भवानी देवी को 8.16 लाख रुपये स्वीकृत किए।
9. वर्ल्ड यू20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स में लंबी कूद में रजत पदक विजेता रहीं 17 वर्षी शैली सिंह का युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की टारगेट ओलम्पिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत समर्थन के लिए एथलीट्स के कोर ग्रुप में चयन किया गया है।
10. भारत से चीन के लिए इंजीनियरिंग सामान का निर्यात इस साल नवंबर में बढ़कर 43.46 करोड़ डॉलर हो गया है। यह जानकारी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया ने दी।

30-12-2021

1. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त रूप से लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई और डीआरडीओ लैब की आधारशिला रखी।
2. विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन को ब्रह्मांड और सौर मंडल से परे पृथ्वी जैसे ग्रहों की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण खोजों के लिए सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा की अगले दशक की प्रमुख अंतरिक्ष वेधशाला, फ्रेंच गुयाना में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बेस से एरियन रॉकेट में लॉन्च की गई।
3. ऑल इंडिया रेडियो के पूर्व उर्दू समाचार वाचक वहीद कुरैशी का नई दिल्ली में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे।
4. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अगले महीने की तीन तारीख से शुरू किये जाने की घोषणा की है।
5. भारत बायोटेक के कोविड टीके को-वैक्सीन को 12 से 18 वर्ष के बच्चों में आपात उपयोग की अनुमति मिल गई है।
6. उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 1 करोड़ विद्यार्थियों को टेबलेट और स्मार्ट फोन देने की शुरुआत की।
7. भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह का ऐतिहासिक बल्ला अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला बल्ला बन गया है। युवराज के उस बल्ले को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 2003 के एकदिवसीय मैच में अपना पहला शतक लगाने के लिए किया था।
8. ब्रोकरेज हाउस एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने वर्ष 2022 के लिए इन 10 शेयरों- आदित्य बिड़ला कैपिटल, गेल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, इप्का लैब्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैक्स फाइनेंशियल, मैक्स हेल्थकेयर, भारतीय स्टेट बैंक, टेक महिंद्रा और जी एंटरटेनमेंट को 'बाय' कॉल दी है।
9. जीएमआर एयरपोर्ट्स नीदरलैंड्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स की एक स्टेप-डाउन सब्सिडियरी ने इंडोनेशिया के मेदान में कुआलानामु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
10. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 'भारत दर्शन पार्क' का उद्घाटन किया, जहां बेकार चीजों और अपशिष्ट सामग्री से भारत के कई प्रतिष्ठित स्मारकों की आकर्षक प्रतिकृतियां बनाई गई हैं।

31-12-2021

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी का दौरा किया और 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
2. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चौथी वर्षगांठ पर, मंडी में 28,197 करोड़ रुपये से अधिक की 287 निवेश परियोजनाओं की नींव रखी।
3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने मणिपुर के इंफाल में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए एक नए समेकित क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया।
4. दक्षिण कोरिया में कोरोनावायरस के इलाज के लिए अमेरिकी दवा दिग्गज फाइजर इंक की दवा के लिए आपातकालीन प्राधिकरण ने मंजूरी दे दी, जिससे यह देश में इस्तेमाल होने वाली पहली पिल बन गई है।
5. लद्दाख में उपराज्यपाल के सलाहकार ने लेह में आवास, शहरी विकास और सामाजिक तथा जनजातीय कल्याण विभागों की ई-सेवाओं का लोकार्पण किया।
6. जनता दल (यूनाइटेड) से राज्यसभा सांसद और उद्योगपति डॉ. महेन्द्र प्रसाद का दिल्ली में निधन हो गया। वह 81 वर्ष के थे।
7. मशहूर अमेरिकी चित्रकार वेन थीबोर्ड का निधन हो गया है। वह 101 वर्ष के थे।
8. दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को समाप्त करने में मदद करने वाले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आर्कबिशप डेसमंड टूटू का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
9. तमिल पार्श्व गायिका और अभिनेता मनिका विनयगम का निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे।
10. यूनान के पूर्व राष्ट्रपति कारोलोस पापौलियास का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।